



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 631 राँची, शुक्रवार

29 जून, 2018 (ई०)

---

### राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

.....

आदेश

28 जून 2018

संख्या-03नि0पं0-338/2015 रा0नि0आ0 1084.. यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, बोकारो के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है ।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	बोकारो	XV बोकारो-04	मिहीलाल गोप, ग्राम-ढेन्डे, पंचायत-होसिर पश्चिमी, प्रखण्ड-गोमिया, बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XV बोकारो-05	राजेश कुमार शर्मा, ग्राम-खुदगड़ा, पंचायत-हजारी, प्रखण्ड-गोमिया, बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		XV बोकारो-05	सुरेश कुमार शर्मा, ग्राम-खुदगड़ा, पंचायत-हजारी, प्रखण्ड-गोमिया, बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		XV बोकारो-09	अनिता देवी, ग्राम-धोसकी, पंचायत-बरई, प्रखण्ड-नावाडीह, बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		XV बोकारो-11	लिखिया देवी, ग्राम-नर्रा, ग्राम पंचायत-नर्रा, प्रखण्ड-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		XV बोकारो-11	गीता देवी, ग्राम-पपलो, ग्राम पंचायत-पपलो, प्रखण्ड-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7		XV बोकारो-15	छत्रधारी ठाकुर, ग्राम-मिर्जापुर, ग्राम पंचायत-पतकी, प्रखण्ड-पेटरवार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8		XV बोकारो-15	दिनानाथ चौबे, ग्राम-तेनुघाट, ग्राम-पंचायत-तेनुघाट, प्रखण्ड-पेटरवार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

9	XV बोकारो-15	महेन्द्र ठाकुर, ग्राम-मिर्जापुर ग्राम पंचायत-पतकी, प्रखण्ड-पेटरवार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
10	XV बोकारो-15	सूरजमल नायक, ग्राम-खेतको, ग्राम पंचायत-खेतको, प्रखण्ड-पेटरवार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
11	XV बोकारो-15	कामेश्वर यादव, ग्राम-खेतको, ग्राम पंचायत-खेतको, प्रखण्ड-पेटरवार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
12	XV बोकारो-18	कविता देवी, ग्राम-दातू, ग्राम पंचायत-दातू, प्रखण्ड-कसमार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
13	XV बोकारो-18	चूनरी देवी, ग्राम-दाँतु, ग्राम पंचायत-दाँतु, प्रखण्ड-कसमार, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
14	XV बोकारो-20	खाड़े राम मुर्मु, ग्राम-जैना, ग्राम पंचायत-जैना, प्रखण्ड-जरीडीह, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
15	XV बोकारो-21	बसंति देवी, ग्राम-बस्ती बालीडीह, ग्राम पंचायत-गोड़ाबाली दक्षिणी, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
16	XV बोकारो-22	मसकुर आलम सिद्दीकी, ग्राम-इस्लामपुर मकदुमपुर, ग्राम पंचायत-हैसाबातु पश्चिमी, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
17	XV बोकारो-23	भीम रजक, ग्राम-नवाडीह, ग्राम पंचायत-नवाडीह, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
18	XV बोकारो-24	चरकु बाउरी, ग्राम-लबुडीह, ग्राम पंचायत-काण्ड्रा, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

**झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 29 जून, 2018**

19	XV बोकारो-25	रामेश्वर तुरी, ग्राम-दुधीगाजर (ठाकुरडीह), ग्राम पंचायत-बारपोखर, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	XV बोकारो-26	कीर्ति बास महतो, ग्राम-सिमुलिया, टोला-आगरदाहा, ग्राम पंचायत-गोपालपुर, प्रखंड-चास, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
21	XV बोकारो-28	माधुरी देवी, ग्राम-नाराडीह, ग्राम पंचायत-शिवबाबुडीह, प्रखंड-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
22	XV बोकारो-30	सरस्वती देवी, ग्राम-चन्दनकियारी, टोला-हुचुकडीह, ग्राम पंचायत-चन्दनकियारी पूर्वी, प्रखंड-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह० /-(अस्पष्ट),**  
उप निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
झारखण्ड, राँची।

-----